

2019

**ELECTRICAL MEASUREMENT & INSTRUMENTATION**

निर्धारित समय : तीन घंटे]

Time allowed : Three Hours]

[अधिकतम अंक : 70

[Maximum Marks : 70]

**नोट :** (i) प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं पाँच के उत्तर दीजिये।

**Note :** Question No. 1 is compulsory, answer any FIVE questions from the remaining.

(ii) प्रत्येक प्रश्न के सभी भागों को क्रमवार एक साथ हल कीजिये।

Solve all parts of a question consecutively together.

(iii) प्रत्येक प्रश्न को नये पृष्ठ से प्रारम्भ कीजिये।

Start each question on fresh page.

(iv) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है।

Only English version is valid in case of difference in both the languages.

1. (i) मध्यम प्रतिरोध मापन की विधियों के नाम लिखिए।

Write the name of methods used for measurement of medium resistance.

- (ii) नियंत्रण बलाधूर्ण के अभाव में सूचक मापक उपयंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

What happens in the absence of controlling torque in indicating type measurement instrument?

- (iii) एल.वी.डी.टी. के लाभ लिखिए।

Write advantages of LVDT.

- (iv) सादृश्य पारांतरित्र एवम् अंकिय पारांतरित्र में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

Differentiate between Analog transducer and Digital transducer.

- (v) सी.आर.ओ. तथा आर.वी.डी.टी. का पूरा नाम लिखिए।

Write full form of C.R.O. and R.V.D.T.

(2×5)

2. (i) केल्विन डबल सेतु विधि द्वारा निम्न प्रतिरोध का मापन समझाइए।

Explain Kelvin's double bridge method for measurement of low resistance.

- (ii) शेरिंग सेतु विधि द्वारा धारिता मापन को समझाइए।

Explain method for measurement of capacitance by using Schering bridge. (6+6)

3. (i) दिष्ट धारा विभवमापी का सिद्धान्त व कार्यविधि लिखिए।

Write the principle and working of D.C. potentiometer.

- (ii) एकल कला प्रेरण प्रकार ऊर्जा मापी का सीधे भार विधि द्वारा परीक्षण समझाइए।

Explain testing of single phase induction type energy meter by direct loading method.

(6+6)

(1 of 2)

P.T.O.

4. (i) परांतरित्र का वर्गीकरण उचित उदाहरण सहित कीजिए।  
 Classify transducers with suitable example.  
 (ii) मापक गुणांक को परिभाषित कीजिए एवं इसका व्यंजक स्थापित कीजिए।  
 Define gauge factor. Derive an expression for gauge factor. (6+6)
5. (i) यंत्र प्रणाली को दर्शाने वाले विस्तृत ब्लॉक चित्र का वर्णन कीजिए।  
 Describe the generalised block-diagram of an instrumentation system.  
 (ii) सी.आर.ओ. की कार्यविधि को ब्लॉक चित्र के द्वारा समझाइए।  
 Explain the working of C.R.O. with the help of block-diagram. (6+6)
6. (i) मध्यम प्रतिसेव विधि का वर्णन कीजिए।  
 Explain substitution method for measurement of medium resistance.  
 (ii) उपयंत्र परिणामित्र से सम्बन्धित निम्न पदों को परिभाषित कीजिए :  
 Define the following terms related to instrument transformer :  
 (a) रूपांतरण अनुपात  
 Transformation ratio  
 (b) अभिहित अनुपात  
 Nominal ratio  
 (c) अनुपात संशुद्धि गुणक  
 Ratio correction factor  
 (d) वर्तन अनुपात  
 Turn ratio (6+6)
7. (i) स्थाई चुम्बक चल कुंडली उपयंत्र की संरचना एवं कार्य सिद्धान्त समझाइए।  
 Explain construction & working principle of PMMC type instrument.  
 (ii) मापन उपकरणों में विक्षेपण बलाधूर्ण, नियंत्रण बलाधूर्ण तथा अवर्दंदन बलाधूर्ण को समझाइए।  
 Explain Deflecting Torque, Controlling Torque and Damping Torque in measuring instruments. (6+6)
8. निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए :  
 Write short notes on any two of the following :  
 (i) मैगर  
 Megger  
 (ii) आर.वी.डी.टी.  
 R.V.D.T.  
 (iii) थर्मिस्टर  
 Thermistor (6x2)